



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

(साप्ताहिक/WEEKLY)

प्राधिकार से प्रकाशित,  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 1-मई 7, 2004 (वैशाख 11, 1926)  
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 1-MAY 7, 2004 (VAISAKHA 11, 1926)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	401
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	431
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	513
भाग II—खण्ड 1—अभिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अभिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के चित्र तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	417
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	3225
भाग III—खण्ड 3—पुष्प प्राप्ति के प्राधिकार के अधीन व्यवसाय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2165
भाग IV—नगर-परकारी व्यक्तियों और नगर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	131
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला समुदाय	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

## CONTENTS

	Page		Page
<b>PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b>	401	<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules &amp; Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)</b>	
<b>PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court</b>	431	<b>PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence</b>	31
<b>PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence</b>		<b>PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India</b>	417
<b>PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence</b>	513	<b>PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs</b>	3225
<b>PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations</b>		<b>PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners</b>	
<b>PART I—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations</b>		<b>PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies</b>	2165
<b>PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills</b>		<b>PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies</b>	131
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b>		<b>PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi</b>	
<b>PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)</b>			

**भाग 1—खण्ड 1**  
**[PART I—SECTION 1]**

**(एक मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं**  
**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

**कृषि और सहकारिता मंत्रालय**  
**(कृषि और सहकारिता विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2004

संकल्प

आ.सं. 3-2 (i)/2004-एन.सी.एफ.सी.-इ.एस.-  
कृषि मंत्रालय तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बीच  
अधिक क्रियाकलाप प्रोत्साहित करने तथा सामंजस्य स्थापित  
करने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय तथा भारतीय मौसम विज्ञान  
विभाग के बीच एक क्रियात्मक मंच का गठन करने का निर्णय  
लिखा गया है जोकि कृषि तथा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में  
भिन्न-भिन्न जलवायु पर्यवेक्षण प्रणालियों, तरीकों, मौसम  
संबंधी सूचना तथा मौसमीय उपकरणों के प्रयोग की संभावनाओं  
को देखेगा तथा परियोजनाओं को मिशन मोड में परिभाषित  
करेगा तथा रूप देगा तथा व्यापक सूचना समर्थन एवं विज्ञान  
आधारित, कृषि विकास के लिए इसकी शैली प्रदान करेगा।

इंटरफेस बैठकों में निम्नलिखित प्रतिनिधि होंगे :—

**कृषि मंत्रालय**

1. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग—सह अध्यक्ष
2. सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग  
महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद—सह  
अध्यक्ष
3. अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग (श्री सुदीप  
बनर्जी)
4. अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग (श्री वी०  
एस० लाली)
5. आर्थिक एवं सांख्यिकीय सलाहकार
6. संयुक्त सचिव (विस्तार)
7. संयुक्त सचिव (सूखा प्रबंध)
8. निदेशक, केन्द्र अनुसंधान संस्थान—सूखा भूमि कृषि,  
हैदराबाद
9. सहायक महानिदेशक, मौसम विज्ञान, भारतीय कृषि  
अनुसंधान परिषद
10. अपर सांख्यिकीय सलाहकार, एन० सी० एफ० सी०—  
आयोजक

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग**

1. सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग—सह-अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
3. प्रमुख राष्ट्रीय मध्यम वर्गीय मौसम पूर्वानुमान  
केन्द्र (एन०सी०एम०आर०डब्ल्यू०एफ०)
4. अपर महानिदेशक (डा० एस० आर० कलसी),  
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
5. उप महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  
(डा० सुब्राम्णयन)
6. श्री एम० के० भटनागर, निदेशक, भारतीय मौसम  
विज्ञान विभाग।

2. कृषि मंत्रालय—भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  
इंटरफेस के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार है :—

- (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा एन०सी०एम०आर०  
डब्ल्यू०एफ० द्वारा विकसित की गयी उन प्रौद्योगिकियों  
तथा उन उत्पादों का पता लगाना जो कृषि मंत्रालय द्वारा  
प्रचार/उपयोग के लिए उपयुक्त है,
- (ख) कृषि क्षेत्र तथा इसकी तकनीकी व्यवहार्यता की  
आवश्यकता हेतु मौसम विज्ञान संबंधी सूचना की  
पहचान,
- (ग) निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतीय मौसम विज्ञान—एन०सी०  
एम०आर०डब्ल्यू० एफ० आदि से सुविधा सरलीकरणः
  - i. उपर्युक्त समय और अंतराल के क्रम में मौसम विज्ञान  
संबंधी भविष्यवाणी
  - ii. मौसम संबंधी—सूचना की तैयारी, मिलान, अनुवाद  
तथा प्रसार
  - iii. भारतीय मौसम विज्ञान/एन०सी०एम०आर०डब्ल्यू०  
एफ० द्वारा कृषि मंत्रालय की भागीदारी सहित  
परियोजनाओं की स्थापना
  - iv. कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान एवं  
शिक्षा विभाग तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/  
एन०सी०एम०आर०डब्ल्यू०एफ० से जुड़ी संस्थाओं के  
अंतर्गत परियोजनाओं की स्थापना

v. जिला स्तरीय उपयोगी मौसम संबंधित सूचना प्रणाली की स्थापना।

(घ) किसानों की जरूरतों के लिए मौसम संबंधी सूचना प्रसार के माध्यम से कृषि में जोखिम प्रबंध।

3. सह-अध्यक्षों को इंटरफेस मंच के विचारणीय विषयों को बढ़ाने का अधिकार होगा, ताकि किन्हीं अर्थपूर्ण विकासात्मक तथा अनुसंधान परियोजनाओं को आकार दिया जा सके।

4. इंटरफेस बैठकों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों आदि का दिल्ली में आयोजन करने के लिए, खर्च मेजबान विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।

5. उनके संबंधित विभाग/एजेन्सी द्वारा इंटरफेस की बैठकों में भाग लेने वालों की यात्रा तथा अन्य भत्तों का खर्च वहन किया जाएगा। तथापि, मंच में भाग लेने के लिए यदि किसी

विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा बाहर के किसी विशेषज्ञ अथवा सलाहकार को बुलाया जाता है, मेजबान विभाग बुलाए जाने वाले विशेषज्ञों अथवा सलाहकारों के खर्च का वहन करेगा।

6. इसे सह-अध्यक्ष अर्थात् सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा सचिव (एस और टी) तथा माननीय कृषि मंत्री जी की कसूर से जारी किया गया है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को पहुंचा दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. डी. चिन्मय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND  
COOPERATION  
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND  
COOPERATION)

New Delhi, the 25th February 2004

RESOLUTION

No. 3-2(1)/2004-NCFC-ES—In order to promote greater interaction and established synergies between the Ministry of Agriculture (MOA) and the India Meteorological Department (IMD), it has been decided to set up an interactive forum between the Ministry of Agriculture and IMD to look into the possibilities of application of different climate observation systems, methods, whether related information and meteorological devices in the field of agriculture and food security, which can define and identify projects in mission mode and provide a comprehensive information support and its delivery for science based agriculture development.

The following would be representatives at the interface meetings :—

Ministry of Agriculture

1. Secretary, Department of Agriculture and Co-operation (DAC)—Co-Chairman
2. Secretary, Department of Agriculture Research and Education (DARE)/Director-General ICAR—Co-Chairman
3. Additional Secretary, DAC (Sh. Sudeep Banerjee)
4. Additional Secretary, DAC (Sh. B. S. Lalli)
5. Economic & Statistical Adviser
6. JS (Extension)
7. JS (Drought Management)

8. Director, Central Research Institute for Dry Land Agriculture, Hyderabad
9. Assistant Director General, Meteorology, ICAR
10. Additional Statistical Adviser, NCFC

—Convenor

Department of Science and Technology

1. Secretary, Department of Science and Technology (DST)
  2. Director-General, IMD
  3. Head, National Centre for Medium Range Weather Forecast (NCMRWF)
  4. Addl. Director-General (Dr. S. R. Kalsi), IMD
  5. Dy. Dir. Gen, IMD, (Dr. Subramanian)
  6. Sh. M. K. Bhatnagar, Director, IMD
2. The terms of reference of the MOA-IMD interface will be as under :—

- (a) Identification of Technologies and Met-products developed by IMD and NCMRWF, which are suitable for propagation/applications by Ministry of Agriculture.
- (b) Identification of Meteorological Information needs of Agriculture sector and its technical feasibility.
- (c) Facilitation from IMD-NCMRWF etc. in the following fields :
  - i. Meteorological predictions in suitable scale of time and space
  - ii. Met-Information Generation, Collation, Translation and Dissemination
  - iii. Setting-up of Projects by IMD/NCMRWF, with MOA participation.

- iv. Setting-up of Projects under DAC, DARE and with associated Institutions with IMD/ NCMRWF
- v. Establishment of district level value added weather information systems.
- (d) Risk Management in Agriculture through Met Information dissemination customized for farmers' need.
- 3. It shall be further open to the Co-chairmen to enlarge the terms of reference of the interface forum, in order to give shape to any meaningful developmental and research projects.
- 4. For organizing interface meetings, workshops and seminars etc., expenses for convening the same at Delhi would be borne by the host Department or agency.
- 5. Their respective Department/agency concerned would meet the travelling and other allowances

of the participants at the meetings of the interface. However, if any outside expert or consultant is invited by any of the Departments, or agency, for participating in the forum, that the host Department shall bear the cost of inviting the experts or the consultants.

- 6. This issues with the concurrence of the Co-Chairman, i.e. Secretary, DAC Secretary, DARE and Secretary (S & T) and with the approval of Hon'ble Union Minister for Agriculture

#### ORDER

Ordered that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. D. SINHA  
H. Secy.